



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्रतिभार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 56] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 1982/अग्राहयण 11, 1904
No. 56] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 2, 1982/AGRAHAYAN 11, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1982

आ० अ० 95 (अ) - भारत निर्वाचन आयोग का, हरियाणा विधान सभा के लिए मई, 1982 को हुए माधारण निर्वाचन के सम्बन्ध में उनके कर्तव्य में उल्लेख अन्तिम सूचना के आधार पर, यह समाधान हो गया है कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 6 के अनुसार इंडियन कांग्रेस (जे) उक्त माधारण निर्वाचन में प्राप्त किए गए अपने मतों के परिणाम स्वरूप हरियाणा राज्य में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए हकदार हैं ;

और निर्वाचन आयोग ने इंडियन कांग्रेस (जे) को हरियाणा राज्य में तत्काल आधार पर एक राजकीय दल के रूप में मान्यता देने और हरियाणा राज्य में उक्त दल के लिए "तराजू" निर्वाचन प्रतीक आरक्षण करने का निर्णय किया है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग, उक्त प्रतीक आदेश के पैरा 17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ख) और (ग) और उप-पैरा (2) के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3 (iii), तारीख 12 अप्रैल, 1982 में क० आ० 29 (अ) के रूप में प्रकाशित और

समय समय पर यथा संशोधित प्रवृत्ति अधिसूचना सं० 56/82 तारीख 8 अप्रैल, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करता है; अर्थात् :-

- उक्त अधिसूचना की सारणी 2 में, आसाम राज्य से सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद, स्तम्भ 1, 2 और 3 में, "हरियाणा इंडियन कांग्रेस (जे) ... तराजू" प्रविष्टि रखी जाएगी; और
- उक्त अधिसूचना की सारणी 2 में, 5 हरियाणा राज्य के मामले, स्तम्भ 2 के नीचे, "16. तराजू" प्रविष्टि हटा दी जाएगी और विद्यमान प्रविष्टियां 17 से 20 तक को 16 से 19 तक के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

उपरोक्त राजनैतिक दल को प्रदत्त मान्यता और तारीख 8 अप्रैल, 1982 को अधिसूचना में पारिणामिक संशोधन हरियाणा विधान सभा के माधारण निर्वाचन के संबंध में अन्तिम आंकड़ों की प्राप्ति पर उस दल में द्वारा प्राप्त किए गए मतों के परिणाम स्वरूप पुनरीक्षा के अध्वधीन है।

उक्त प्रदत्त मान्यता भी निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है--

- दल बिना देरी किए निर्वाचन आयोग को अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारियों के पत्तों अथवा राजनैतिक सिद्धान्त, नीतियों, लक्ष्य और उद्देश्यों में किसी प्रकार के परिवर्तन तथा किसी

अस्य महत्वपूर्ण मामले में किर्मा प्रकार में परिवर्तन के बारे में संसूचित करेगा ;

- (ii) दल जब कभी दल के विधान में किसी प्रकार का संशोधन करना है तो उसकी सूचना सुसंगत दस्तावेजों जैसे संशोधनों पर विचारार्थ बैठक की सूचना, बैठक के लिए कार्यसूची, उस बैठक का कार्यवृत्त जिसमें संशोधन किए गए, आदि के साथ तत्काल निर्वाचन आयोग को गूँथित करेगा ;
- (iii) दल सभी अभिलेखों जैसे कार्यवृत्त पुस्तक, लेखा बहियों, सदस्यता रजिस्ट्रों, रसाद बहियों आदि का संसूचित रूप में रख-रखाव करेगा ;
- (iv) निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उक्त अभिलेखों का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा, और
- (v) निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई मान्यता का समय समय पर पुनर्विलोकन किया जा सके ।

[56/82-6]

आदेश से,
के० गणेशन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 1982

O.N. 95(E).—Whereas the Election Commission of India is satisfied on the basis of provisional information available in its possession in respect of the general election to the Legislative Assembly of Haryana State held in May 1982 that as a result of its poll performance at the said general election, the Indian Congress (J) is entitled for recognition as a State Party in the State of Haryana in terms of paragraph 6 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;

And Whereas the Commission has decided to recognise the Indian Congress (J) as a State Party in the State of Haryana on ad-hoc basis, and reserve 'Scales' for the said Party in Haryana State;

Now, therefore, in pursuance of clause (b) and clause (c) of sub-paragraph (1) and Sub-paragraph (2) of paragraph 17

of the said Symbols Order, the Election Commission hereby makes the following amendments in its notification No. 56/82, dated the 8th April, 1982, published as O.N. 29(E) in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3(iii) dated the 12th April 1982, as amended from time to time, namely—

- (1) IN TABLE 2 of the said notification, in columns 1, 2 and 3, after the entries relating to the State of Assam, the entries "Haryana..... Indian Congress (J).....Scales" shall be inserted; and
- (2) IN TABLE 4 of the said notification, against the State of 5] Haryana, under column 2, the entry "16 Scales" shall be deleted and the existing entries 17 to 20 shall be renumbered as 16 to 19.

The recognition granted to the above mentioned political party and consequential amendments to the notification dated 8th April, 1982 are subject to review of the poll performance of that party on receipt of final figures in respect of general election to the Legislative Assembly of Haryana State.

The recognition granted above is also subject to the following conditions:—

- (i) The party shall communicate to the Commission without delay any change in its name, head office, office bearers, address or political principals, policies, aims and objectives and any change in any other material matters;
- (ii) The party shall intimate the Commission immediately whenever any amendments are issued to party Constitution along with the relevant documents like the notice for the meeting to consider amendments, agenda for the meeting, minutes of the meeting where the amendments have been carried etc;
- (iii) The party shall maintain all the records like minutes books, accounts books, membership registers, receipt books etc, properly;
- (iv) The said records shall be open for inspection at any time by the authorised representative (s) of the Commission; and
- (v) The recognition granted shall be reviewed by the Commission from time to time.

[56/82-VI]

By Order,

K. GANESHAN, Secy.